

संख्या-BSDM/ युवा उप मिशन-06/2016-
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-

विषय:- राज्य सरकार के 7 निश्चय के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश ।

प्रसंग:- ज्ञापांक -BSDM/ युवा उप मिशन-06/2016-457, दिनांक-21.09.2016 को प्रतिस्थापित करने के संबंध में ।

महाशय,

इस पत्रांक द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के संबंध में पूर्व में निर्गत प्रासंगिक पत्र को प्रतिस्थापित करते हुये निम्नांकित नये दिशानिर्देश निर्गत किये जा रहे हैं । मूलतः कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों की अर्हता आयु को परिवर्तित करते हुये दोनों श्रेणियों के लिये इसे 15-25 वर्ष कर दिया गया है । अतः निम्नांकित दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्रवाई की जाये ।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-673 दिनांक 21.12.2015 द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार के 7 निश्चयों में "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के एक निश्चय कौशल विकास को सुनिश्चित करने के संबंध में शामिल निश्चय का उद्धरण निम्नवत् है:-

"राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत करया जाएगा"

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त एक नई योजना "कुशल युवा कार्यक्रम" प्रारंभ करने एवं कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग को सौंपा गया है।

2. कौशल विकास केन्द्र:-

इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय भी राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिये सभी प्रखण्डों में स्थल चयन किया जा चुका है तथा निर्माण एजेन्सी बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। इन भवनों का औपचारिक उद्घाटन 2 अक्टूबर, 2016 को प्रस्तावित है । ये भवन निविदा के माध्यम से निजी संस्थाओं को प्रशिक्षण संचालन हेतु आवंटित किये जायेंगे । इसके लिये प्रथम बार की निविदा में 292 केंद्र आवंटित किये जा चुके हैं एवं शेष 242 केंद्रों के आवंटन हेतु पुनर्निविदा निकाली जा चुकी है । इसके अलावा व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा स्वयं के भवनों में भी केन्द्र का संचालन किया जायेगा जिसके लिये ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया 15 जुलाई से प्रारंभ है एवं 26 अक्टूबर, 2016 तक केंद्रों को अंतिम स्वीकृति दे दी जायेगी ।

3. कुशल युवा कार्यक्रम :-

कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण क्रमशः 80,120 एवं 40 घंटे, इस प्रकार कुल 240 घंटे का होगा, जिसे तीन माह में पूरा किया जायेगा । कौशल विकास केन्द्रों पर कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण 15 नवम्बर, 2016 से प्रारंभ करने की योजना है ।



4. कुशल युवा कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्तायें एवं शर्तों:-

- i. 15-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवक/युवती जो अध्ययनरत नहीं हों तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता विभिन्न बोर्ड/परीक्षा परिषदों से राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण या 12वीं उत्तीर्ण हो, को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।
- ii. आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिये।
- iii. 20-25 वर्ष के जिन बेरोजगार युवकों को स्वयं सहायता भत्ता की राशि दी जायेगी उन्हें प्रखण्ड स्तर पर संचालित भाषा संवाद, व्यवहार कौशल एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा) का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
- iv. वैसे छात्र जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं किसी कारणवश आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनकी आयु 15-25 वर्ष के अन्तर्गत है और वे कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिये भी कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
- v. 15-25 वर्ष के आयुवर्ग के वैसे बेरोजगार युवक/युवती जो अध्ययनरत नहीं हैं, वे चाहें तो केवल कुशल युवा कार्यक्रम के लिये भी आवेदन दे सकते हैं।

5. आवेदन की प्रक्रिया

- 5.1 स्वयं सहायता भत्ता/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं कौशल विकास योजनाओं से संबंधित आवेदन करने हेतु एक एकीकृत **Online Portal** विकसित किया जाएगा, जिसका दायित्व योजना एवं विकास विभाग का है। सभी प्रकार के आवेदन सिर्फ **Online** प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ होगी। कोई भी आवेदक जो 10वीं उत्तीर्ण एवं 15-25 आयु वर्ग के हों या 12वीं उत्तीर्ण एवं 15-25 वर्ष के आयु वर्ग में हों तथा इन योजनाओं के लिए पात्रता रखते हों, इस पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन दे सकेंगे। सर्वप्रथम आवेदक द्वारा पोर्टल में सामान्य वांछित सूचनाएँ दर्ज की जाएगी जिसे **Submit** करने पर उन्हें एक यूनिक पंजीकरण संख्या उनके मोबाईल नंबर/ ई-मेल पर सर्वर द्वारा भेजा जाएगा। इस यूनिक पंजीकरण संख्या को पोर्टल में डालने पर आवेदक के समक्ष तीनों योजनाओं के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। आवेदक द्वारा किसी भी एक योजना के विकल्प का चयन करने पर उस योजना का आवेदन प्रपत्र **Online** उपलब्ध हो जायेगा। आवेदक केवल कुशल युवा कार्यक्रम के लिये आवेदन दे सकते हैं। अगर वे स्वयं सहायता भत्ता के लिये आवेदन देते हैं तो उसी प्रपत्र में कुशल युवा कार्यक्रम की भी जानकारी भरनी होगी। स्वयं सहायता भत्ता के आवेदकों को अलग से कुशल युवा कार्यक्रम का आवेदन नहीं भरना होगा। **Online** आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदक को इसकी पावती यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नं० एवं ई-मेल पर क्रमशः मैसेज एवं मेल द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आवेदन का प्रपत्र सरल है तथा इसके साथ किसी भी प्रकार का कागजात ऑनलाईन जमा नहीं किया जाना है।
- 5.2 आवेदकों को इस योजना हेतु आवेदन को काउण्टर पर जमा करते समय किन-किन कागजातों की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी उन्हें **Online** आवेदन समर्पित करते समय ही ई०-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। साथ ही आवेदक द्वारा **Online** समर्पित आवेदन की एक **PDF** प्रति भी उनके **E-mail ID** पर भेज दी जाएगी। आवेदकों को वांछित कागजातों के सत्यापन हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने हेतु एक तिथि एवं समय निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना उन्हें एक सप्ताह अग्रिम में **E-mail** एवं **SMS** के द्वारा दी जायेगी।
- 5.3 वैसे छात्र जो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हों, जिनकी आयु 15-25 वर्ष है एवं किसी कारणवश आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तथा वे कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी इस वेब-पोर्टल पर आवेदन दे सकेंगे। इन आवेदकों के पास केवल कुशल युवा कार्यक्रम का विकल्प होगा।
- 5.4 आवेदक **E-mail** पर प्राप्त अपने आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति पर अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर एवं वांछित कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संसूचित तिथि पर केन्द्र पर आयेंगे। उन्हें वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति भी साथ में रखनी होगी। जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के प्रवेश द्वार पर इन्हें एक टोकन नम्बर दिया जाएगा जिसके आधार पर केन्द्र के हॉल में उनकी प्रविष्टि होगी। आवेदक केन्द्र में प्रवेश कर प्रतीक्षा हॉल में अपने नम्बर आने की प्रतीक्षा करेंगे। आवेदक को उपलब्ध कराये गए टोकन नं० का प्रदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड पर किया जाएगा, जहाँ आवेदक अपना क्रमांक आने पर सारे मूल प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं **Online** समर्पित आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ काउंटर पर

+

जायेंगे। मूल प्रमाण पत्र **Scanning** के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे। कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक लिखित पावती भी दी जाएगी।

5.5 **आवश्यक कागजात**

कुशल युवा कार्यक्रम हेतु इच्छुक युवाओं को जिला निबंधन केन्द्र पर आवेदन जमा करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित कागजातों के छायाप्रति की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी :-

- i. 10वीं कक्षा या 12वीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र।
 - ii. 10वीं या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण-पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि वर्णित हो
 - iii. आवासीय प्रमाण-पत्र
 - iv. किसी अनुसूचित बैंक में (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोड़कर) आवेदक के नाम से संधारित बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें आवेदक का नाम, पता, बैंक खाता संख्या तथा संबंधित बैंक शाखा का **IFSC** कोड स्पष्टतः अंकित हो।
 - v. आधार कार्ड
- 5.6 काउंटर पर प्राप्त स्व-अभिप्रमाणित आवेदन प्रपत्र एवं आवश्यक कागजातों की छायाप्रति अभिलेख के रूप में रख ली जायेगी एवं कम्प्यूटर में **Soft Copy** में संधारित आवेदन एवं उसके साथ स्कैन कर जोड़े गए मूल कागजातों को **Online** ही केन्द्र में चिन्हित सहायक प्रबंधक को अंतरित कर दिया जायेगा। सभी स्तरों पर आवेदन के अग्रसारण/निष्पादन हेतु समयावधि निर्धारित की जायेगी तथा इसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।
- 5.7 केन्द्र के प्रवेश द्वार पर एक '**May I help you**'का भी काउंटर रहेगा जहाँ आवेदक को सहयोग एवं उनकी पृच्छाओं का समाधान किया जाएगा।

6. **आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया**

- 6.1 कुशल युवा कार्यक्रम हेतु काउंटर पर प्राप्त स्व-अभिप्रमाणित आवेदन प्रपत्र एवं आवश्यक कागजातों की छायाप्रति अभिलेख के रूप में रख ली जायेगी एवं कम्प्यूटर में **Soft Copy** में संधारित आवेदन एवं उसके साथ स्कैन कर जोड़े गए मूल कागजातों को **Online** ही केन्द्र में चिन्हित सहायक प्रबंधक को अंतरित कर दिया जायेगा। उनके द्वारा चेक लिस्ट के अनुसार सत्यापन के पश्चात बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल (**www.skillmissionbihar.org**) पर आवेदन को **Online** हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- 6.2 आवेदन से संबंधित हर स्तर पर की गयी कार्रवाई की सूचना आवेदकों को **SMS/e-mail/Web Portal** द्वारा दी जाएगी।
- 6.3 सभी स्तर पर सेवाओं के निष्पादन हेतु अधिकतम अवधि निर्धारित की जाएगी।
- 6.4 जो आवेदक कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उनके द्वारा प्रशिक्षण के लिये चयनित प्राथमिकता वाले प्रखंडों में उपलब्ध कौशल विकास केन्द्रों से उनकी प्राथमिकता के अनुसार उन्हें **tag** किया जायेगा एवं इसकी सूचना बाद में **SMS/ e- mail** से दी जायेगी।
- 6.5 इन आवेदकों को बैच प्रारम्भ होने से पहले टैग किये गये कौशल विकास केन्द्र पर निर्धारित तिथि को उपस्थित होना होगा जहाँ उनकी काउंसिलिंग की जायेगी। केन्द्र 20 प्रशिक्षणार्थियों का बैच बनाकर मिशन के पोर्टल पर अनुमोदन प्राप्त कर निर्धारित तिथि को बैच प्रारम्भ करेंगे।

7. **आधार पंजीयन की व्यवस्था**

वैसे आवेदक जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है उनके लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आधार पंजीयन हेतु काउंटर स्थापित किया जाएगा जिसके लिए सारी व्यवस्थाएँ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जाएगी। आधार पंजीयन के वक्त उपलब्ध कराये जानेवाले **EID (Enrolment Id)** के साथ भी इन



योजनाओं के लिए आवेदन समर्पित किया जा सकता है परंतु आधार नम्बर उपलब्ध होने के बाद ही इन योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। संबंधित सहायक प्रबंधक ऐसे आवेदक के आधार कार्ड पंजीयन की स्थिति का अनुश्रवण करेंगे एवं आधार कार्ड नम्बर प्राप्त होते ही स्वतः उसे आवेदन में दर्ज कर ऐसे लंबित आवेदनों की स्वीकृति/अनुशंसा हेतु चिन्हित विभागीय पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

8. आधारभूत संरचना

- 8.1 कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस केन्द्र के भवन हेतु भूमि जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है तथा भवन का निर्माण उत्तर बिहार के जिलों में बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम एवं दक्षिण बिहार में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के माध्यम से किया जा रहा है।
- 8.2 इस केन्द्र हेतु भवन निर्माण के कार्य का पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। सभी जिलों के जिला पदाधिकारी द्वारा इस निमित्त **Nodal Officer** नामित किया जा चुका है।
- 8.3 प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी द्वारा की जाएगी जिन्हें निविदा के माध्यम से केन्द्र संचालन हेतु आवंटित किया जायेगा।
- 8.4 प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र पर बैठने की समुचित व्यवस्था होगी। पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
- 8.5 इन केन्द्रों का संचालन सप्ताह में 6 दिन (मिशन द्वारा घोषित अवकाश को छोड़कर) सामान्यतः दो पालियों में प्रातः 9:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक होगा।
- 8.6 प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र का दैनिक रख रखाव, साफ-सफाई, सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थायें प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8.7 इन प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्रों के अलावा प्रत्येक प्रखण्ड में प्राप्त आवेदनों के अनुसार प्रथम चरण में अधिकतम 10 तक (पटना जिले में पटना सदर, फुलवारीशरीफ तथा दानापुर को छोड़कर जहाँ अधिकतम संख्या 20 रखी गई है) कौशल विकास केन्द्र, व्यक्ति/ संस्थाओं के निजी परिसर में स्थापित किये जायेंगे। किसी भी आवेदन के साथ केंद्र की टैगिंग आवेदक की सहूलियत, उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता एवं केंद्र की उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

9. मानव बल

- 9.1 कुशल युवा कार्यक्रम एवं अन्य कौशल विकास प्रशिक्षणों के अनुश्रवण हेतु आवश्यक संख्या में मानव बल बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जिले में प्रारंभ में कम से कम दो कर्मियों की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी, जिनके कार्य एवं दायित्व निम्नवत होंगे :-
 - (क) केन्द्रों के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
 - (ख) केन्द्र पर प्रशिक्षण कार्य की गुणवत्ता का अनुश्रवण।
 - (ग) केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु आनेवाले आवेदकों को दी जाने वाली सुविधाओं का अनुश्रवण करना एवं उसे सुनिश्चित कराना।
 - (घ) कौशल विकास प्रशिक्षण के प्रशिक्षण की गुणवत्ता, प्रमाणीकरण एवं नियोजन का अनुश्रवण।

10. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण केन्द्र का निर्धारण:-

जिला निबंधन केन्द्र से प्राप्त अभ्यावेदन में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र का निर्धारण किया जाएगा।

11. प्रशिक्षणार्थी का दायित्व:-

- (क) ससमय प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थिति।
- (ख) जो अर्हता प्राप्त आवेदक स्वयं सहायता भत्ता नहीं प्राप्त कर रहे हों उन्हें प्रशिक्षण हेतु अग्रधन के रूप में ₹0 1000/- (एक हजार) केन्द्र के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन में जमा करना होगा, जो प्रशिक्षण में सफल होने के बाद वापस कर दिया जाएगा।
- (ग) जो आवेदक स्वयं सहायता भत्ता के लिये आवेदन दिये हों उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 5 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जायेगी जब तक वे उक्त प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र नहीं समर्पित करते हैं।
- (घ) प्रशिक्षण केन्द्र पर अनुशासन बनाये रखना।

- (ड.) प्रशिक्षण को शत प्रतिशत ससमय पूरा करना ।
(च) अन्तिम परीक्षा में सम्मिलित होना तथा उसे सफलतापूर्वक पास करना ।

12. प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सी का दायित्व:-

- (क) प्रखण्ड कौशल विकास केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था ।
(ख) प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखना ।
(ग) प्रशिक्षण हेतु निर्धारित आवश्यक संसाधन की व्यवस्था ।
(घ) प्रशिक्षणार्थियों को मिशन द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना ।
(ड.) सभी कार्य दिवसों में (मिशन द्वारा घोषित अवकाश को छोड़कर) प्रशिक्षण संचालन करना ।
(च) निर्धारित तीन माह की अवधि में बैच की पढ़ाई तथा उसका प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण करना ।

13. राज्य स्तर पर कॉल सेंटर की स्थापना

इस योजना के तहत आवेदकों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु राज्य स्तर पर योजना एवं विकास विभाग द्वारा एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसके टॉल फ्री नं० पर आवेदक योजनाओं, आवेदन करने एवं अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कुशल युवा कार्यक्रम तथा अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी के लिये मिशन के द्वारा भी एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है जिसका टॉल फ्री नं० 18001236525 है ।


14. प्रचार-प्रसार

राज्य सरकार के इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार रेडियो जिंगल/दूरदर्शन/ SMS/होर्डिंग्स/इत्यादि के माध्यम से राज्य स्तर से जिला स्तर तक किया जाएगा ।

15. अनुश्रवण की व्यवस्था

- 15.1 राज्य स्तर पर बिहार कौशल विकास मिशन के अधीन परियोजना प्रबंधन इकाई इस योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभावी अनुश्रवण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।
15.2 जिला स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा प्रतिनियुक्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक होंगे, जो जिले के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन करेंगे। जिला स्तर पर जिला कौशल समिति द्वारा भी अनुश्रवण किया जाएगा ।
15.3 इसके अलावा मिशन के नॉलेज पार्टनर महाराष्ट्रा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी SISA (Statewide implementation support agency) के कर्मी राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त रहेंगे जो जिला कार्यक्रम प्रबंधक के साथ पूरे कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे ।
16. कौशल विकास योजना में कालान्तर में राज्य सरकार द्वारा कुछ संशोधन किए जाते हैं या अन्यथा कोई निर्णय लिये जाते हैं तो उससे ससमय अवगत कराया जाएगा ।
उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय के अन्तर्गत कुशल युवा कार्यक्रम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये ।

विश्वासभाजन


(दीपक कुमार सिंह)

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

... (31) ... (32)

... (33) ... (34)

... (35) ... (36) ... (37) ... (38) ... (39) ... (40)

... (41) ... (42) ... (43) ... (44) ... (45) ... (46) ... (47) ... (48) ... (49) ... (50)

... (51) ... (52) ... (53) ... (54) ... (55) ... (56) ... (57) ... (58) ... (59) ... (60)

... (61) ... (62)

... (63) ... (64) ... (65) ... (66) ... (67) ... (68) ... (69) ... (70) ... (71) ... (72)

... (73) ... (74) ... (75) ... (76) ... (77) ... (78) ... (79) ... (80) ... (81) ... (82)

... (83) ... (84) ... (85) ... (86) ... (87) ... (88) ... (89) ... (90) ... (91) ... (92)

Handwritten signature or stamp

... (93) ... (94) ... (95) ... (96) ... (97) ... (98) ... (99) ... (100)

ज्ञापांक-BSDM / युवा उप मिशन-06 / 2016-

477

पटना, दिनांक- 28/9/2016

प्रतिलिपि:-सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान (महिला सहित)/सभी उप निदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रिय निरीक्षी पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी/उप निदेशक नियोजन / सभी उप श्रमायुक्त/ सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक-BSDM / युवा उप मिशन-06 / 2016-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक-BSDM / युवा उप मिशन-06 / 2016-

477

पटना, दिनांक- 28/9/2016

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग- सह- सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन, पटना/मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, पटना/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन

ज्ञापांक-BSDM / युवा उप मिशन-06 / 2016-

477

पटना, दिनांक- 28/9/2016

प्रतिलिपि:-मेसर्स एम0के0सी0एल0, पुणे/परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबंधन ईकाई, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक-BSDM / युवा उप मिशन-06 / 2016-

477

पटना, दिनांक- 28/9/2016

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक-BSDM / युवा उप मिशन-06 / 2016-

477

पटना, दिनांक- 28/9/2016

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।